



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र, 1941 (श०)

संख्या- 296 राँची, मंगलवार,

2 अप्रैल, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश

19 मार्च, 2019

आदेश संख्या:-5/आरोप-1-519/2014 का. 2431-- मो० प्रवेज, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डु, पलामू को अनुचित आचरण करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश संख्या-169, दिनांक 07.01.2012 द्वारा निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय, पलामू निर्धारित किया गया।

2. मामले के समीक्षोपरांत विभागीय आदेश सं०-1071, दिनांक 08.02.2012 द्वारा मो० प्रवेज को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया।

3. मो० प्रवेज के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पाण्डु, पलामू के पदस्थापन अवधि में इनके विरुद्ध पलामू जिले के पाण्डु थाना में प्राथमिकी सं०-82/11 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना में प्राथमिकी सं०-19/11 दर्ज की गई थी।

4. प्राथमिकी सं०-19/11 को अनुसंधान के क्रम में पुलिस द्वारा असत्य प्रतिवेदित किया गया है जबकि प्राथमिकी सं०-82/11 से संबंधित जी०आर० वाद सं०-1954/11 में दिनांक 21.09.2015 को प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी, पलामू द्वारा पारित न्यायादेश में उन्हें सुलह के आधार पर आरोप मुक्त किया गया है।

5. आयुक्त के सचिव, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर के पत्रांक-216, दिनांक 23.03.2018 द्वारा मो0 प्रवेज के निलंबन अवधि के विनियमन संबंधी पत्र उपलब्ध कराया गया है।

6. आयुक्त के सचिव, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर से प्राप्त पत्र के समीक्षोपरांत मो० प्रवेज के निलंबन अवधि दिनांक 20.12.2011 से 07.02.2012 तक को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-11 के अन्तर्गत कर्तव्य पर बिताई गई अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
